



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य (पत्रांक-333/20 दिनांक 28.11.2020)

दिनांक- 28.11.2020 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

लगजरी वाहन से तस्करी कर ले जायी जा रही 14 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद में अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.11.2020 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उजारनाथ के पास से 1 अदद सुमो विक्टा गाड़ी नं0 BR 05 P1255 में से तस्करी कर ले जायी जा रही 14 पेटी 8 PM अंग्रेजी शराब कुल 672 पैकेट (फ्रूटी) व 6 पेटी आफिसर्स च्वाइस अंग्रेजी शराब कुल 288 पैकेट के साथ 03 नफर अभियुक्तों 1. विट्टू सिंह पुत्र सुग्रीव सिंह साकिन सपही बुजुर्ग थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर 2. विनोद प्रसाद यादव पुत्र झगडू प्रसाद यादव साकिन जगौलिया टोला बीर्ति गुलाब खाँ थाना मधुवन जनपद मोतीहारी(बिहार) 3. सत्येन्द्र कुमार यादव पुत्र रामप्रवेश यादव साकिन मुजफ्फरपुर थाना मुजफ्फरपुर जनपद वैशाली (बिहार) को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 455/2020 धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

विवरण बरामदगी-

1. सुमो विक्टा गाड़ी नं0 BR05P1255 (कीमत लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये)
2. 14 पेटी 8 PM अंग्रेजी शराब कुल 672 पैकेट (फ्रूटी) व 6 पेटी आफिसर्स च्वाइस अंग्रेजी शराब कुल 288 पैकेट (कीमत 101000 रूपया लगभग)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विट्टू सिंह पुत्र सुग्रीव सिंह सा0 सपही बुजुर्ग थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2. विनोद प्रसाद यादव पुत्र झगडू प्रसाद यादव साकिन जगौलिया टोला बीर्ति गुलाब खाँ थाना मधुवन जनपद मोतीहारी (बिहार)
3. सत्येन्द्र कुमार यादव पुत्र रामप्रवेश यादव सा0 मुजफ्फरपुर थाना मुजफ्फरपुर जनपद वैशाली (बिहार)

बरामद करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अतुल्य कुमार पाण्डेय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 दीनानाथ पाण्डेय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
3. का0 सूरज गिरी थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
4. का0 विनोद गुप्ता थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

अवैध शराब बिक्री,परिवहन,निष्कर्षण में की गयी कार्यवाही-(कुल-03)

थाना कुबेरस्थान-

थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त नितीश यादव पुत्र राजेन्द्र साकिन रूपही यादव टोला थाना भितहाँ जनपद पश्चिमी चम्पारण (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 135 शीशी 27 ली0 बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0- 211/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-834/2020,835/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 16 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-215 वाहन।
2. 107/116 जा0फौ0 में की गयी कार्यवाही-मु0-08, व्यक्ति-28
3. आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही-मु0-04,अभि0- 04 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता , बरामदगी- सुमो विक्टा गाड़ी नं0 BR05P1255 , 14 पेटी 8PM अंग्रेजी शराब कुल 672 पैकेट (फ्रूटी) व 6 पेटी आफिसर्स च्वाइस अंग्रेजी शराब कुल 288 पैकेट ,135 शीशी बन्टी बबली देशी शराब व 10 ली0 कच्ची शराब।
4. जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-22)।